

Stamford हॉस्पिटल एक वित्तीय सहायता प्रोग्राम की पेशकश करता है जो उन पात्र रोगियों की सहायता के लिए है जो बीमारहित हैं या जिनके पास पर्याप्त बीमा नहीं है। पॉलिसी केवल चिकित्सकीय तौर पर आवश्यक सेवाओं, हॉस्पिटल सेवाओं और कुछ विशेष चिकित्सकों और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं को कवर करती है। हॉस्पिटल इस समुदाय को उनकी भुगतान करने की क्षमता की परवाह न करते हुए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

फाइनेंशियल असिस्टेंस (वित्तीय सहायता) प्लैन भाषा सारांश

फाइनेंशियल असिस्टेंस (वित्तीय सहायता) प्रोग्राम (FAP) वित्तीय मानदण्ड को पूरा करने के लिए आपके परिवार की वार्षिक आय संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिवार का आकार	वार्षिक आय	मासिक आय	साप्ताहिक आय
1	\$ 48,240	\$ 4,020	\$ 928
2	\$ 64,960	\$ 5,413	\$ 1,249
3	\$ 81,680	\$ 6,807	\$ 1,571
4	\$ 98,400	\$ 8,200	\$ 1,892
5	\$ 1,15,120	\$ 9,593	\$ 2,214
6	\$ 1,31,840	\$ 10,987	\$ 2,535

आवेदन कैसे करें:

वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक आवेदन करना होगा।

हमारे वित्तीय सहायता सारांश, फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (वित्तीय सहायता नीति) और आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट <https://www.stamhealth.org> पर उपलब्ध हैं।

आप फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी और आवेदनपत्र के लिए हमारे ग्राहक सेवा विभाग को CustomerServiceR@stamhealth.org पर ईमेल करके या ग्राहक सेवा विभाग को (203) 276-7572 पर फोन करके या (203) 276-7093 पर फैक्स करके या व्यक्तिगत रूप से बिजनेस ऑफिस (व्यापारिक कार्यालय) के रजिस्ट्रेशन क्षेत्रों या फाइनेंस काउंसलर ऑफिस (वित्तीय सलाहकार कार्यालय) के हमारे किसी भी ऑफसाइट स्थानों (पॉलिसी देखें) से प्राप्त कर सकते हैं।

यदि रोगी हेल्थ इश्योरेंस एक्सचेंज (QHP), कर्मचारी अनुग्रह, दायित्व, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट (MVA) या मेडिकेड (Medicaid) जैसे अन्य वित्त संसाधनों या कवरेज के पात्र हैं लेकिन इन लाभों के लिए आवेदन करने के इच्छुक नहीं हैं या इन्कार करते हैं तो उनके FAP आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

हम वित्तीय सहायता सारांश पॉलिसी की पेशकश करते हैं:

English, स्पेनिश, क्रियोल (अनुरोध करने पर हमारी वेबसाइट [-https://www.stamhealth.org](https://www.stamhealth.org) पर उपलब्ध हैं

स्वतंत्र प्रदाता जो संभवतः हमारे वित्तीय सहायता प्रोग्राम में भागीदारी नहीं करते हैं:

कुछ चिकित्सक, क्लीनिशियन या रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थियालॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एम्बुलेंस सेवाएं और कुछ सर्जन जो Stamford हेल्थ में आपकी देखभाल में सहायता करते हैं संभवतः हमारे वित्तीय सहायता प्रोग्राम में भागीदारी नहीं करते हैं। इन प्रदाताओं की सूची के लिए कृपया हमारी FAP नीति देखें या डाउनलोड करें या हमें (203) 276-7572 पर सम्पर्क करें।

मुफ्त बेड निधियां:

आप हॉस्पिटल को विशेष उपचारों और विभागों के लिए दान की गई प्रतिबंधित मुफ्त बेड निधियां प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं। उपलब्धता निर्धारित करने के लिए आप हमें (203) 276-7572 पर कॉल कर सकते हैं।

